



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

जागृति

वर्ष:66 अंक:5 मुंबई अप्रैल 2022

निरंजना बेन कलार्थी, सचिव, स्वराज आश्रम, बारडोली ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद के करकमलों से नारी शक्ति पुरस्कार ग्रहण किया।



लैकमे फैशन वीक 2022 में
खादी ने सभी का दिल जीता;



खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सम्पादकीय मण्डल

इस अंक में....

अध्यक्ष

श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक

एम. राजन बाबू

सह संपादक

संजीव पोसवाल

उप संपादक

सुबोध कुमार

डिजाइन व पृष्ठसज्जा

संजय सोमदे

वरिष्ठ कलाकार

चंद्रशेखर पुनवटकर
कलाकार

दिलिप पालकर
कलाकार

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुंबई - 400056 के लिए ई-प्रकाशित
ईमेल: kvicpub@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

समाचार सार

03-25

भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए.....	3
केवीआईसी के पीपीए रिजर्व फण्ड ने खादी संस्थानों को कीमतों में भारी बढ़ोतरी से बचाया.....	4
एमएसएमई मंत्री द्वारा महिला उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया.....	6
खादी ने लक्मे फैशन वीक 2022 में सभी का दिल जीता.....	7
केवीआईसी ने हर्षोल्लास के साथ मनाया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस.....	10
केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस.....	11
खादी ने राजस्थान में बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन किया;.....	13
आयोग के अध्यक्ष ने खादी संस्थाओं से जुड़े बुनकरों से की गहन चर्चा.....	15
बेंगलुरु में प्राकृतिक पेंट इकाई का उद्घाटन.....	15
आयोग के विभागीय बहु-उद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्रों का अखिल भारत प्राचार्य सम्मेलन.....	16
आयोग के अध्यक्ष ने आदिवासी लोगों को कुम्हारी चाक व अगरबत्ती बनाने की मशीनें.....	17
हिंदी कार्यशाला आयोजित.....	17
आयोग के अध्यक्ष द्वारा आजीविका के साधनों का वितरण.....	18
आयोग के अध्यक्ष ने पंजोखेरा में खादी कताई और बुनाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया.....	18
सांसद, उदयपुर ने केवीआईसी की बोलड परियोजना हेतु बाड़ लगाने के कार्य का उद्घाटन किया.....	19
हुबली में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन.....	19
सागर (म.प्र.) में 20 विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित.....	20
मशीनरी और टूल किट वितरित.....	20
होशंगाबाद, (म.प्र.) में विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित.....	20
वाराणसी में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला.....	21
फुटवियर प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित.....	21
मऊ में 100 लाभार्थियों को विद्युत चालित कुम्हारी चाक तथा ब्लंजर मशीन वितरित.....	21
सी. बी. कोरा ग्रामोद्योग संस्थान, बोरीवली, मुंबई में पीएमईजीपी पर जागरूकता कार्यक्रम.....	22
केरल के मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत प्रशिक्षण.....	22
कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत विद्युत चालित कुम्हारी चाक का वितरण.....	23
अगरतला में पीएमईजीपी कार्यशाला सम्पन्न.....	23
विविध.....	24-25
मऊ में राष्ट्र स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम.....	24
सागर (म.प्र.) में कुम्हार कारीगर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम.....	24
हरिद्वार में 10 दिवसीय कुम्हार कारीगर कौशल प्रशिक्षण का आयोजन.....	24
भदोही जिले में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत सहायक उपकरण सहित 200 मधुमक्खी.....	25

प्रेस कवरेज26-31

भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए



08 मार्च, 2022 दिल्ली: भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च, 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। खादी संस्था-स्वराज आश्रम, बारडोली की सचिव निरंजना बेन कलार्थी को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया।

देश में कपास की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच -

केवीआईसी के पीपीए रिज़र्व फंड ने खादी संस्थानों को कीमतों में भारी बढ़ोतरी से बचाया

13 मार्च, 2022, नई दिल्ली : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा 2018 में बाजार के उतार-चढ़ाव और अन्य समस्याओं का सामना करने के लिए लिया गया एक विशेष आरक्षित कोष बनाने का दूरदर्शी फैसला देश भर के सभी खादी संस्थानों के लिए एक रक्षक के रूप में सामने आया है, जब पूरा वस्त्र उद्योग कच्चे कपास की कीमतों में बढ़ोतरी से जूझ रहा है।

वर्ष 2018 में, केवीआईसी ने एक उत्पाद मूल्य समायोजन खाता (पीपीए) तैयार करने का फैसला किया था, जो बाजार आधारित घटनाओं से निपटने के उद्देश्य से उसके 5 केन्द्रीय पूनी संयंत्र (सीएसपी) के लिए एक आरक्षित कोष है। ये सीएसपी कपास खरीद रहे हैं और खादी संस्थानों को आपूर्ति के लिए उन्हें स्लिवर और रोविंग में तब्दील कर रहे हैं, जो उनसे यार्न और फैब्रिक बनाते हैं। इन सीएसपी द्वारा बेचे गए कुल स्लिवर/ रोविंग से प्रति किलोग्राम सिर्फ 50 पैसे का हस्तांतरण करके पीपीए कोष तैयार किया गया था।

तीन साल बाद भी जब पूरा वस्त्र क्षेत्र कच्चे कपास की आपूर्ति में कमी और कीमतों में बढ़ोतरी से जूझ रहा है, तब केवीआईसी ने कपास की कीमतों में 110 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी के बावजूद अपने केन्द्रीय पूनी संयंत्रों से खादी संस्थानों को आपूर्ति होने वाले स्लिवर/ रोविंग की कीमत नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बजाय, केवीआईसी बढ़ी हुई दरों पर कच्चे कपास की बेलस की खरीद पर 4.06 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत का वहन पीपीए कोष से करेगा।

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि कच्चे कपास की कीमत पिछले 16 महीनों के दौरान 36,000 रुपये प्रति कैंडी से बढ़कर 78,000 रुपये प्रति कैंडी (हर कैंडी का वजन 365 किलोग्राम होता

है) हो गई है। इसका देश भर में बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों के सूती वस्त्रों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ा, जिन्होंने हाल के महीनों में उत्पादन 30 से 35 फीसदी तक घटा दिया है।

केवीआईसी का पहला बार रिज़र्व फंड बनाने का फैसला 2,700 पंजीकृत खादी संस्थानों और खादी इंडिया के 8,000 से ज्यादा आउटलेट्स के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है जो पहले से कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के चलते उत्पादन और विपणन चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

केवीआईसी अपने कुत्तूर, चित्रदुर्ग, सिहोर, रायबरेली और हाजीपुर स्थित अपने 5 केन्द्रीय पूनी संयंत्र (सीएसपी) के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) से कपास की बेल खरीदता है, जिससे कपास की विभिन्न किस्मों को स्लिवर और रोविंग में बदला जाता है। केवीआईसी द्वारा खरीदी जाने वाली कपास की किस्मों में बीबी मोड, वाई-1/एस-4, एच-4/जे-34, एलआरए/एमईसीएच, एमसीयू 5 और डीसीएच 32 शामिल हैं। इन दिनों इन किस्मों की कीमतों में प्रति कैंडी 13,000 रुपये से 40,000 रुपये तक प्रति कैंडी की बढ़ोतरी हो चुकी है।

केवीआईसी को 31 मार्च, 2022 तक विभिन्न किस्मों की 6,370 कपास की बेलल की जरूरत होगी, जिनकी मौजूदा दर पर कीमत 13.25 करोड़ रुपये पड़ेगी जबकि पुरानी दरों पर यह कीमत 9.20 करोड़ रुपये होती। कीमत में 4.05 करोड़ रुपये के अंतर की भरपाई केवीआईसी द्वारा बनाए गए पीपीए रिज़र्व से की जाएगी।

रिज़र्व फंड से सुनिश्चित हुआ है कि देश में खादी संस्थान कीमतों में बढ़ोतरी से अप्रभावित रहे हैं और खादी में सूती वस्त्रों की कीमतें भी नहीं बढ़ी हैं।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इस फैसले से खादी संस्थानों के साथ-साथ खादी के खरीदार दोनों कीमत में बढ़ोतरी के नकारात्मक प्रभाव से बचेंगे। श्री सक्सेना ने कहा, “भारतीय कपास निगम (सीसीआई) से कच्चे कपास की

आपूर्ति में कमी और इसके परिणाम स्वरूप कपास की कीमत में बढ़ोतरी से खादी सहित पूरे टेक्सटाइल उद्योग को झटका लगा है। लेकिन केवीआईसी ने खादी संस्थानों को पुरानी दरों पर रोविंग/स्लिवर की आपूर्ति जारी रखने का फैसला किया है, जिससे संस्थानों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचाया जा सके। इसके साथ ही, खादी के करोड़ों खरीदारों को फायदा होगा, क्योंकि खादी के कपड़े और परिधानों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री के 'खादी फॉर नेशन' के विजन के क्रम में खादी के हर खरीदार को सस्ती कीमत में खादी उपलब्ध कराना केवीआईसी की प्रतिबद्धता है।”

भारतीय टेक्सटाइल उद्योग में खादी की लगभग 9 प्रतिशत हिस्सेदारी है और यह हर साल लगभग 15 करोड़ मीटर फैब्रिक का उत्पादन करता है। इस फैसले से खादी अकेली ऐसी इकाई के रूप में सामने आई है, जो कपास की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से अप्रभावित है। इस प्रकार खादी के खरीदारों और खादी संस्थानों के पास खुश होने की अच्छी वजह है।

खादी संस्थानों ने एक सुर में इस कदम का स्वागत किया है और इस अहम समर्थन के लिए केवीआईसी को धन्यवाद देते हुए

कहा कि इससे बाजार में किसी प्रकार के उतार-चढ़ाव से संस्थानों को सुरक्षा मिलेगी।

खादी उद्योग जटलाना, अंबाला के सचिव श्री सार्थक सिंगला ने कहा, “कपास की कीमतें 70 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई हैं। केवीआईसी के इस कदम से खादी संस्थानों को इस मुश्किल दौर में बने रहने में मदद मिलेगी। स्लिवर और रोविंग की कीमत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी से खादी संस्थानों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता, जो अभी तक कोविड19 से उबर रहे हैं।”

खादी ग्रामोद्योग संघ, अहमदाबाद के श्री संजय शाह ने कहा कि कपास की कीमतों में बढ़ोतरी से खादी के उत्पादन और कारीगरों के पारिश्रमिक पर सीधे असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, “यदि कच्चे माल की लागत बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से उत्पादन घट जाएगा और इस प्रकार, कारीगरों को मिलने वाला पारिश्रमिक घट जाएगा। मैं केवीआईसी का आभारी हूँ जिसने संस्थानों और कारीगरों को इस संकट से बचाया है।”

कपास के मूल्य की तुलना

क्र. सं.	कपास की किस्म	पुरानी कीमत प्रति कैंडी (रुपये में)	वर्तमान कीमत प्रति कैंडी (रुपये में)	कीमत में अंतर प्रति किग्रा (रुपये में)
1	बीबी मोड	50,000	75,000	73
2	वाई-1 / एस-4	45,000	58,000	37
3	एच-4 / जे-34	48,000	74,000	74
4	एलआरए/ मेश	46,500	70,000	66
5	एमसीयू_5	64,000	95,000	88
6	डीसीएच_32	75,000	1,15,000	113

एमएसएमई मंत्री द्वारा महिला उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 07 मार्च, 2022 को स्कोप कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में महिला दिवस समारोह पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आयोग के राज्य कार्यालय, दिल्ली ने भी भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

मंत्री श्री नारायण राणे ने की और केवीआईसी के माननीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने भी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उत्तर क्षेत्र) और राज्य निदेशक, दिल्ली के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

पीएमईजीपी योजना की 09 महिला लाभार्थी/उद्यमियों को मंत्री और माननीय अध्यक्ष केवीआईसी द्वारा आमंत्रित और सम्मानित किया गया।




खादी ने लक्मे फैशन वीक 2022 में सभी का दिल जीता

अभिनेत्री एवं मॉडल कंगना रनौत ने खादी के टिकाऊपन को लाजबाव बताया

प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने खादी इंडिया के लिए सभी के आकर्षण का केंद्र बनकर रैंप वॉक किया। इस अवसर पर बड़े ही आकर्षक ढंग से उनका साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित छह डिजाइनरों यथा मोसी ट्रॉरे, अभिषेक गुप्ता बनारस, अनाविला, अंजू मोदी, चारु पाराशर और रीना ढाकाने भी दिया।

यह पहली बार हुआ है कि पेरिस के एक अंतरराष्ट्रीय डिजाइनर मोसी ट्रॉरे ने खादी फैशन शो में भाग लिया है। मोसी ने अपने डिजाइनों में वास्तु-संबंधी रूपरेखा के साथ सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

यह दूसरी बार हुआ है जब खादी ने लक्मे फैशन वीक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है; इससे पहले वर्ष 2018 में ऐसा देखने को मिला था। खादी इंडिया शो का आयोजन भारतीय फैशन डिजाइन परिषद (एफडीसीआई) द्वारा



नई दिल्ली: खादी, जिसे आजादी के ताने-बाने के साथ-साथ स्वदेशी, टिकाऊपन और सादगी का भी प्रतीक माना जाता है, ने 24.03.2022 को नई दिल्ली में चल रहे लक्मे फैशन वीक 2022 में एक विशेष प्रस्तुति के साथ वैश्विक फैशन जगत में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई।

किया गया। एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना और

एमएसएमई सचिव श्री बी बी स्वैन इस अवसर पर उपस्थित थे।

कंगना रनौत ने धूमिल सफेद रंग की खादी जामदानी साड़ी पहनरैंप पर अपनी शानदार उपस्थिति से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस खादी जामदानी साड़ी को पश्चिम बंगाल की एक प्राचीन शिल्प माना जाता है। कंगना रनौत ने खादी को सबसे टिकाऊ वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने युवाओं से 'केवल स्वदेशी' उत्पादों को ही खरीदने का अनुरोध किया।

कंगना ने कहा, "रैंप पर वापस आना और खादी जैसी खास चीज के लिए वापसी करना तो और भी खुशी की बात है। पूरी दुनिया अब भारतीय कपड़ों, विशेषकर खादी के बारे में चर्चा कर रही है, जो बुनियादी वस्त्र होने के साथ-साथ हमारी त्वचा के अनुकूल और पर्यावरण अनुकूल भी है।





उन्होंने कहा, खादी राष्ट्र का ताना-बाना है और इसमें लाखों लोगों के जीवन में आमूलचूल बदलाव लाने की उत्कृष्ट क्षमता है।”

खादी इंडिया कलेक्शन अपने विशिष्ट रंगों और रूपरेखा एवं सौंदर्य आकर्षण के साथ भारतीय उत्कृष्टता का प्रतीक साबित हुआ। डिजाइनरों ने प्राकृतिक सफेद और काले रंग के साथ-साथ जीवंत रंगों का भी इस्तेमाल किया।

समसामयिक नजरिए के साथ समस्त खादी इंडिया कलेक्शन के तहत सदैव टिकाऊ माने जाने वाले खादी वस्त्रों को एक नए फैशनेबल वस्त्र के रूप में पेश किया गया।

भारतीय वस्त्र हजारों वर्षों से अस्तित्व में हैं। जब हम खादी खरीदते हैं, तो हम न केवल अपने प्राचीन शिल्प को बहाल करने में मदद करते हैं, बल्कि इसके साथ ही देश में अनगिनत लोगों के लिए आजीविका भी सृजित करते हैं। जब भी आप कोई चीज खरीदें, तो यह सुनिश्चित करें कि वह मेड इन इंडिया ही हो। खादी ही हमारी विशिष्ट पहचान होनी चाहिए।”

श्री सक्सेना ने खादी को सबसे टिकाऊ और सादगी भरा, लेकिन फैशनेबल वस्त्र बताया। उन्होंने कहा, “खादी आधुनिक इतिहास में एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो टिकाऊ चीज के रूप में समय की कसौटी पर खरा उतरा है।



केवीआईसी ने हर्षोल्लास के साथ मनाया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस



8 मार्च, 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में खादी ग्रामोद्योग भवन के महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया।

खादी भवन के बिक्री कार्यों में लगी कुशल महिलाओं के समर्पण और कड़ी मेहनत, हमारे खादी कारीगरों के कौशल और माननीय प्रधान मंत्री के समर्थन ने, हाल के वर्षों में खादी के व्यापक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग, विले पार्ले, मुंबई स्थित केन्द्रीय कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उत्सव को मनाने के लिए #break The bias थीम के साथ सेनेटरी नैपकिन मशीनों की स्थापना और उद्घाटन, जो उन महिला कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार होगी जो कार्यालय परिसर में लंबे समय तक काम करती हैं, जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया।



पीएमईजीपी महिला उद्यमियों द्वारा अनुभव साझा करने के अलावा, वित्तीय प्रबंधन पर व्याख्यान और महिला कर्मचारियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कई



और कार्यक्रम आयोजित किये गये।

इससे पूर्व, केवीआईसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री प्रीता वर्मा ने वित्तीय सलाहकार सुश्री आशिमा गुप्ता व मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉ. संघमिता, की उपस्थिति में कार्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय खादी इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टाल्स पर लगाये गये उत्पादों की सराहना की।

इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. संघमित्रा ने अपनी सफलता की यात्रा साझा की और समाज की अन्य महिलाओं के लिए महिलाओं के योगदान पर बात करते हुए बताया कि कैसे वे हर चरण की जीवन यात्रा में अन्य महिलाओं का समर्थन करें, और आवश्यकता पड़ने पर उनकी हर संभव सहायता करें। जब तक आपके पास अच्छी शिक्षा न हो, आप किसी की मदद नहीं कर सकते। अतः हमेशा अच्छी शिक्षा, एवं स्वास्थ्य को जीवन में महत्व दें। उन्होंने टिप्पणी की "आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ें।"

आयोग की महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्ष सुश्री गीता वारियर ने इस अवसर पर सभी महिला कर्मचारियों का स्वागत किया।



राज्य कार्यालय, जयपुर में



राज्य कार्यालय, अहमदाबाद में



राज्य कार्यालय, तिरुवन्नथपुरम् में



राज्य कार्यालय, अमरावती में



मंडलीय कार्यालय, वाराणसी में



राज्य कार्यालय, दिल्ली में



कुत्तूर में



एमडीटीसी, नदयरा में



खादी ने राजस्थान में बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन किया; जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर के 1,100 कारीगरों को सशक्त बनाया

27 मार्च, 2022 :
राजस्थान में
स्वरोजगार को
प्रोत्साहन देते हुए,
खादी और ग्रामोद्योग
आयोग (केवीआईसी)
ने जोधपुर में कुम्हारों
को 200 विद्युत
चालित कुम्हारी चाक,
कारपेंटर्स को 240
वेस्ट वुड टूलकिट्स
और 450 स्थानीय
कारीगरों को 10 दोना
पेपर प्लेट बनाने वाली
मशीनें वितरित कीं।



केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने जैसलमेर, बाड़मेर, और नागौर जिलों के इन खादी कारीगरों को मशीनें वितरित कीं। इन्हें केवीआईसी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। मशीनों के वितरण से 1,100 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होंगे। इन लाभार्थियों में 170 बीपीएल परिवार भी शामिल हैं।

जैसलमेर के 200 कुम्हार परिवारों को विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित किए गए। जैसलमेर को अपने उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। इन कुम्हारों को केवीआईसी की मुख्य योजना “कुम्हार सशक्तिकरण योजना” के तहत सशक्त बनाया गया है, जिसका उद्देश्य मिट्टी के बर्तनों की लुप्त होती कला

को पुनर्जीवित करना और हाशिए पर मौजूद कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाना है। इसी प्रकार, कारीगरों को केवीआईसी द्वारा कागज की दोना प्लेट और लकड़ी के शिल्प बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि उन्हें स्वरोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने कहा कि इन पहलों को केवीआईसी की “ग्रामोद्योग विकास योजना” के तहत पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण जनता को सशक्त बनाना और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। श्री सक्सेना ने यह भी कहा, “केवीआईसी की ये पहल माननीय



प्रधानमंत्री के “आत्मनिर्भर भारत” के सपने को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। इन योजनाओं के माध्यम से केवीआईसी ने न सिर्फ राजस्थान, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में लाखों रोजगार सृजित किए हैं।” उन्होंने कहा कि केवीआईसी पहली बार राजस्थान के कुम्हारों को ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है, जिससे वे देश भर में अपने मिट्टी के उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि केवीआईसी का राजस्थान पर प्रमुख रूप से जोर है, जहां खादी गतिविधियों के माध्यम से रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं हैं। इसके अलावा राजस्थान में मिट्टी के बर्तनों सहित कला के कई रूपों को केवीआईसी द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। अभी तक केवीआईसी राज्य में 5,000 से ज्यादा विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित कर चुका है, जिससे लगभग 14,000 रोजगार सृजित हुए हैं। वेस्ट वुड टूल किट्स के वितरण से 240 कारपेंटर परिवारों को, जबकि 10 पेपर प्लेट बनाने वाली मशीनों से 50 लोगों को रोजगार मिलेंगे।



आयोग के अध्यक्ष ने खादी संस्थाओं से जुड़े बुनकरों से की गहन चर्चा



लाभान्वित हुए हैं।

हनी मिशन कार्यक्रम लाभान्वित श्रीमती सुधा देवी, श्रीमती पूनम, श्री विजय कुमार एवं श्री बिहारी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने, योजनाओं के लाभ और समस्याओं से अवगत कराया, जिसके लिए माननीय अध्यक्ष ने उन्हें जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना के अपने वाराणसी दौर के दूसरे दिन 02 मार्च, 2022 को खादी ग्रामोद्योग विकास परिषद, मरुई, वाराणसी के परिसर में खादी संस्थाओं से जुड़े कत्तिनों-बुनकरों, स्थानीय कुम्हारों, वाराणसी क्षेत्र के मधुमक्खी पालकों और मधुमक्खी पालन के उद्यमियों से बात की, जिससे उन्हें आयोग की योजनाओं से लाभ हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने खादी संस्थाओं से जुड़े बुनकरों से खुली चर्चा की, जिसमें सभी लाभार्थियों ने खुलकर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। चर्चा के दौरान उन्होंने, श्रीमती धर्मा देवी, रवि प्रजापति, श्री हरिनाथ, श्री राजकुमार, श्री विकास प्रजापति से बात की जो कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम से



बेंगलुरु में प्राकृतिक पेंट इकाई का उद्घाटन

12 मार्च, 2022: केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बेंगलुरु में केवीआईसी की प्राकृतिक पेंट इकाई का उद्घाटन किया, जिसमें 15 व्यक्ति कार्यरत हैं और इसकी उत्पादन क्षमता 1500 लीटर / दिन है। गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट स्थायी आजीविका का एक उपयुक्त मॉडल है, जो माननीय प्रधानमंत्री के किसान की आय बढ़ाने के सपने को साकार करता है।



आयोग के विभागीय बहु-उद्देशीय प्रशिक्षण केन्द्रों का अखिल भारत प्राचार्य सम्मेलन

केवीआईसी के विभागीय बहु उद्देशीय प्रशिक्षण केंद्रों (एमडीटीसी) और गैर विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों (एनडीटीसी) के अखिल भारत प्राचार्य सम्मेलन का उद्घाटन 12 मार्च, 2022 को बैंगलोर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा किया गया।

सम्मेलन का उद्देश्य केवीआईसी के प्रशिक्षण केंद्रों (एमडीटीसी और एनडीटीसी) में कौशल विकास की प्रगति की समीक्षा करना और उभरते और संभावित उद्यमियों एवं नए कारीगर के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन, पाठ्यक्रम सामग्री, मूल्यांकन, प्रमाणन और प्लेसमेंट / उद्यम स्थापना सहित पाठ्यक्रमों के मानकीकरण पर चर्चा करना था।



प्रदान किया।

केवीआईसी के अध्यक्ष ने एमडीटीसी, एनडीटीसी, केवीआईसी के राज्य/ मंडलीय कार्यालयों द्वारा संचालित सभी कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए एकीकृत मानक प्रमाणपत्र भी जारी किए। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानाध्यापकों को एमडीटीसी और एनडीटीसी में पारंपरिक क्षेत्रीय पाठ्यक्रमों विशेष रूप से खादी, कताई और बुनाई पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने और कारीगरों की आजीविका को मजबूत करने का निर्देश दिया।



इस सम्मेलन में 18 एमडीटीसी और 17 एनडीटीसी के 35 प्राचार्यों ने भाग लिया। आयोग के अध्यक्ष ने एमडीटीसी श्रेणी के तहत 'सेंट्रल पामगुड एंड पाम प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूट' (चेन्नई) को और एनडीटीसी श्रेणी के तहत 'कस्तूरबा महिला खादी ग्रामोद्योग विद्यालय' (पुणे) को 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार-2022'



आयोग के अध्यक्ष ने आदिवासी लोगों को कुम्हारी चाक व अगरबत्ती बनाने की मशीनें वितरित कीं



12 मार्च, 2022: केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बेंगलुरु और आसपास के जिलों के आदिवासी लोगों को विद्युत चालित कुम्हारी चाक और अगरबत्ती बनाने की मशीनें वितरित कीं। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि

ग्रामीण आबादी को स्वरोजगार से जोड़ना और ग्रामोद्योगों को मजबूत करना माननीय प्रधान मंत्री का सपना है जिसे केवीआईसी, ग्रामोद्योग विकास योजना के साथ पूरा कर रहा है।



हिंदी कार्यशाला आयोजित



आयोग के राज्य कार्यालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 23.03.2022 को गांधी दर्शन राजघाट, दिल्ली में केवीआईसी के माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में चतुर्थ हिंदी कार्यशाला आयोजित की गयी।

इस कार्यशाला में माननीय अध्यक्ष द्वारा हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। माननीय अध्यक्ष के

जन्मदिन के शुभ अवसर पर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उत्तरी क्षेत्र), राज्य निदेशक, दिल्ली और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों ने अध्यक्ष को शुभकामनाएं दीं। इस शुभ अवसर पर श्रीमती सक्सेना भी उपस्थित थीं।



आयोग के अध्यक्ष द्वारा आजीविका के साधनों का वितरण



केवीआईसी के अध्यक्ष ने पंजोखेरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश में 350 कारीगरों को 1000 मधुमक्खी बक्से, 200 विद्युत चालित कुम्हारी चाक और 10 दोना प्लेट बनाने की मशीनें वितरित कीं। यह स्थानीय कारीगरों के लिए 1200 से अधिक रोजगार पैदा करेगा और राज्य में स्वरोजगार के केवीआईसी के प्रयासों को बढ़ावा देगा।

आयोग के अध्यक्ष ने पंजोखेरा में खादी कताई और बुनाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया



28 मार्च, 2022 को केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने शामली के पंजोखेरा में खादी कताई और बुनाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र कत्तिनों और बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इससे बड़ी संख्या में कारीगरों, विशेषकर महिलाओं को लाभ होगा और इस क्षेत्र में खादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

सांसद, उदयपुर ने केवीआईसी की बोल्ड परियोजना हेतु बाड़ लगाने के कार्य का उद्घाटन किया



12 मार्च, 2022 को उदयपुर के माननीय सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा ने निचला, मंडवा में केवीआईसी की बोल्ड परियोजना साइट के लिए बाड़ लगाने के कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने सांसद निधि से 28 लाख रुपये के सहयोग से प्रोजेक्ट बोल्ड के चारों ओर बाड़ लगाने में मदद की। स्थायी आजीविका के निर्माण की पहल के लिए यह एक महान कार्य और बड़ा समर्थन है।

01 मार्च, 2022 : केवीआईसी की बोल्ड परियोजना के तहत 8 महीने पहले लगाए गए उदयपुर के पास शुष्क क्षेत्र में बांस के पेड़ों को फलते-फूलते देखकर लगता है कि आगामी 3 वर्षों में, यह बंजर भूमि बांस के जंगल में बदल जाएगी, जो स्थानीय अगरबत्ती और बांस शिल्प उद्योगों का समर्थन करेगी।



27 फरवरी, 2022 : बांस चारकोल पर निर्यात प्रतिबंध हटाने के लिए केवीआईसी ने बांस के कचरे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और ग्रामीण उद्योग को मजबूत करके बांस उद्योग में स्थिरता और लाभप्रदता बढ़ाने हेतु एक बेहतर भविष्य के लिए आगे कदम बढ़ाया है।

हुबली में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक श्री जगदीश एस. शेट्टार ने गोकुल गार्डन, हुबली में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोग के विभागीय निदेशक, हुबली श्री एस.एस ताम्बे, सह निदेशक श्री सुनील वीर उपस्थित थे।

श्री जगदीश एस. शेट्टार ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि खादी उद्योग के पारंपरिक क्षेत्र में नई गति लाने के लिए मूलभूत परिवर्तन किया जा रहा है। उन्होंने खादी क्षेत्र में अपने ग्राहक आधार को मजबूत करने के लिए मूल्य संवर्धन और विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने, आयोग के मंडलीय कार्यालय, हुबली द्वारा हुबली में खादी प्रदर्शनी में खादी के अनूठे



उत्पादों को प्रदर्शन करने के लिए सराहना की और उन्होंने, प्रदर्शनी में प्रदर्शित खादी कपड़ों की संरचना और बनावट के बारे में भी विशेष उल्लेख किया।

सागर (म.प्र.) में 20 विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित
ग्रामीण विकास योजना - कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत - ग्राम बम्हानी, जिला सागर (म.प्र.) में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद कुम्हारी उद्योग के तहत 2 स्वयं सहायता समूह के 20 कारीगरों को 20 विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित किए गए, ग्राम सरपंच, ग्राम सचिव, एनआरएलएम अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।



मशीनरी और टूल किट वितरित

आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. एन. शुक्ल ने राज्य कार्यालय, दिल्ली के माध्यम से एमडीटीसी, राजघाट दिल्ली में 23.03.2022 को 05 स्वयं सहायता समूह (सभी महिलाएं) को हस्तनिर्मित कागज और रेशा उद्योग के तहत मशीनरी और टूल किट वितरित किए।



होशंगाबाद (म.प्र.) में विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित

10 मार्च, 2022 को ग्रामीण विकास योजना - कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत - कुम्हारी उद्योग के अंतर्गत सोहागपुर, होशंगाबाद, जिले (म.प्र.) में 10 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद 2 स्वयं सहायता समूह के 20 कारीगरों को 20 विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित किए गए। कार्यक्रम में आयोग उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर क्षेत्र व राज्य निदेशक, भोपाल तथा होशंगाबाद के एसडीएम, तहसीलदार व अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया।



श्रद्धांजलि



भूतपूर्व राज्यपाल एवं केवीआईसी की पूर्व अध्यक्ष कुमुदबेन जोशी का 14 मार्च, 2022 को निधन हो गया। उन्हें हमेशा एक बहुमुखी महिला, सचची और निर्भीक नेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने संगठन और कारीगरों के हितार्थ कई नीतिगत बदलावों की शुरुआत की थी। महिला सशक्तिकरण, कारीगर कल्याण और जन सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान आने वाले वर्षों में हमेशा प्रतिध्वनित होगा।

खादी इंडिया उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है।

वाराणसी में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला

केवीआईसी के विभागीय कार्यालय, वाराणसी ने 27 मार्च, 2022 को खादी ग्रामोद्योग विकास समिति, मरुई, वाराणसी में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला के दौरान श्री एल.बी.एस. यादव, संयुक्त निदेशक, एमएसएमई-डीआई, व यूपी खादी बोर्ड, डीआईसी, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि एवं स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री डी.एस. भाटी, निदेशक प्रभारी, केवीआईसी, वाराणसी ने प्रतिभागियों के बीच ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में संक्षेप में बताया।



निदेशक प्रभारी ने इस अवसर पर कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 13 स्वयं सहायता समूहों के 180 प्रशिक्षित लाभार्थियों के बीच विद्युत चालित कुम्हारी चाक और ब्लंजर मशीन वितरित किये।

फुटवियर प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित



ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत बहुलक एवं रसायन उद्योग के अंतर्गत 02 माह का फुटवियर प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात, 22.03.2022 को आयोग के निदेशक प्रभारी, वाराणसी द्वारा खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी के सीएफटीआई विस्तार केंद्र में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

मऊ में 100 लाभार्थियों को विद्युत चालित कुम्हारी चाक तथा ब्लंजर मशीन वितरित

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मण्डलीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 23.03.2022 को ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 7 स्वयं सहायता समूहों के 100 लाभार्थियों को विद्युत चालित कुम्हारी चाक तथा ब्लंजर मशीन, संबंधित ग्राम प्रधानों तथा स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति में क्रमशः ग्राम- पतनई तथा ग्राम- ढोलना, जिला मऊ में वितरित किए गए।



सी. बी. कोरा ग्रामोद्योग संस्थान, बोरीवली, मुंबई में पीएमईजीपी पर जागरूकता कार्यक्रम एवं समीक्षा बैठक

आयोग के सी.बी. कोरा ग्रामोद्योग संस्थान, बोरीवली, मुंबई में दिनांक 25/03/2022 को पीएमईजीपी पर जागरूकता कार्यक्रम एवं पश्चिम क्षेत्र की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

आयोग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वाई.के.बारामतीकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।



केरल के मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोग की ग्रामीण विकास योजना - कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 10 मार्च, 2022 को कुम्हार कारीगर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम केरल के मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में दो स्वयं सहायता समूह के लिए आयोजित किया गया।



आयोग के राज्य निदेशक, अहमदाबाद ने 10 मार्च, 2022 को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सेवा सहकारी संस्था के साथ स्फूर्ति परिधान क्लस्टर के तहत 30 महिलाओं को सिलाई मशीन और टूल किट वितरित किए।



8 फरवरी, 2022 को केरल में राज्य स्तरीय पीएमईजीपी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।



30 मार्च, 2022 को केवीआईसी के मंडलीय कार्यालय, विजाग द्वारा 20 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को मधुमक्खी बॉक्सेस एवं अन्य टूल किट का वितरण किये गये।

कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत विद्युत चालित कुम्हारी चाक का वितरण

भारत सरकार की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत पलक्कड़ जिले के पुलिनेल्ली में, त्रिशूर जिले के नदथरा में, मलप्पुरम जिले के वजक्कड़ में और कोझीकोड जिले में कुन्नमंगलम और पेरम्बरा इकाइयों में पांच अलग-अलग कुम्हार स्वयं सहायता समूहों में 100 विद्युत चालित कुम्हारी चाक का वितरित किया गया।

यह कार्यक्रम केरल में पहली बार अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार महासंघ की राज्य समिति के अनुरोध पर लागू किया गया था, जो अगस्त 2021 के माह में पट्टम, तिरुवनंतपुरम में

केवीआईसी, केरल कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था। महासंघ के राज्य अध्यक्ष, एडवोकेट शशिकुमार.सी ने अनुरोध किया और पॉटर कार्ड के साथ 1189 कुम्हारों की सूची प्रस्तुत की। 13.01.2022 को केवीआईसी ने 100 संख्या में विद्युत चालित कुम्हारी चाक के आवंटन की सूचना दी। पांच स्वयं सहायता समूहों के गठन के बाद प्रत्येक समूह में 20 कुम्हार शामिल थे और केवीआईसी, केरल द्वारा नियुक्त मास्टर प्रशिक्षकों के अधीन दस दिनों के प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समापन के बाद 22.3.2022 को 100 विद्युत चालित कुम्हारी चाकों को वितरित किया गया।



अगरतला में पीएमईजीपी कार्यशाला सम्पन्न

पीएमईजीपी पोर्टल पर जियो टैगिंग द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के अनुमोदन और वैधीकरण प्रक्रिया पर अगरतला, त्रिपुरा के डीटीई सम्मेलन हॉल में जीएम-डीआईसी और टीकेवीआईबी के लिए दिनांक 04.03.2022 को एक कार्यशाला आयोजित की गई।

विविध

मऊ में राष्ट्र स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम



केवीआईसी के विभागीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा 28 मार्च, 2022 को राजकुमारी शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र, मझवाड़ा, मऊ के छात्र-छात्राएं के लिए एमएसएमई रोजगार उन्मुखी योजना पर वर्चुअल राष्ट्र स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम (एनएलएपी) आयोजित किया गया।



पलक्कड़ जिले के पुलिनेल्ली स्वयं सहायता समूह में 10 दिवसीय विद्युत चालित कुम्हारी चाक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सागर (म.प्र.) में कुम्हार कारीगर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

केवीआईसी के राज्य कार्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 21.03.2022 से 30.03.2022 तक ग्रामोद्योग विकास योजना - कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 2 स्वयं सहायता समूह के 20 ग्रामीण कुम्हारी कारीगरों हेतु 10 दिवसीय कुम्हारी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ग्राम- बरकोटी खुर्द, जिला सागर (म.प्र.) में किया गया।



25 मार्च, 2022 को केरल राज्य के कोझीकोड जिले के कुन्नमंगलम में केवीआईसी द्वारा विद्युत चालित कुम्हारी चाक का वितरण किया गया।

हरिद्वार में 10 दिवसीय कुम्हार कारीगर कौशल प्रशिक्षण का आयोजन

दिनांक 26.03.2022 को कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम थिथिकी, पोस्ट- मैंगलोर, जिला हरिद्वार में 10 दिवसीय कुम्हार कारीगर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसके अलावा, ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत ग्राम कान्हेवाली, रायसी, जिला हरिद्वार में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। केवीआईसी द्वारा संचालित विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई।



भदोही जिले में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत सहायक उपकरण सहित 200 मधुमक्खी बक्से वितरित



आयोग के विभागीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र, जिला भदोही में 04.03.2022 को ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत हनी मिशन योजना के अंतर्गत 02 स्वयं सहायता समूह के 20 लाभार्थी बीच सहायक उपकरण सहित 200 मधुमक्खी बक्से वितरित किए गए।



आयोग के विभागीय कार्यालय, विजाग द्वारा काकीनाडा, ईजी जिला में आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केवीआईसी गतिविधियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।



आयोग के विभागीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 29.03.2022 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिला मऊ में पीएमईजीपी पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।



दिनांक 05.03.2022 को आईटीआई, अंबासा, त्रिपुरा में आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केवीआईसी योजनाओं व कार्यक्रमों पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 68 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



दिनांक 29.03.2022 को आयोग के विभागीय कार्यालय, वाराणसी ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिला अम्बेडकर नगर में पीएमईजीपी के तहत एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया।

प्रेस कवरेज



प्रेस कवरेज



प्रेस कवरेज

2 WEEKLY TIMES, THE TIMES OF INDIA VARIETY

Kangana brings khadi glam to the Delhi ramp



(L-R) Anju Modi, Charu Parashar, Alkesh Gupta Bhanoo and Rina Dhaka



(L-R) Sundi Sethi, Chairman, FDCL, Vinod Kumar Saxena, Chairman, KVVC, and Kangana Ranaut



COVER: Kangana Ranaut



Photo: Sukhdeep

By Divya Kant


Promotion and reinvention of khadi have been the focus of many fashion showcases over the years, and once again, Khadi took the center stage at the ongoing FDCL X Lakshmi Fashion Week, Khadi and Village Industries Commission (KVVC) and the Fashion Design Council of India (FDCI) collaborated for a fashion show, where a group of designers presented their collections. Participating designers were France's Minko Traceo, Alkesh Gupta Bhanoo, Anurita Misra, Anju Modi, Charu Parashar and Rina Dhaka.

Sundi Sethi, Chairman, FDCL, said, "I think cooperation, collaboration, alliance have emerged as the key words to focus on during the pandemic. It is great to join hands with KVVC and work with our designers for the promotion of khadi. With this showcase, we aim to bring to the fore khadi's true potential and promote it at global platforms."

Kangana Ranaut, who walked the ramp as a showstopper, added, "It was a pleasure to be back on the ramp and that too for something so special. Now that the whole world is talking about organic, sustainable fabrics, we all should take this opportunity to promote our Indian fabrics like khadi. Khadi should be our identity."



(L-R) Ashima Gupta, Financial Advisor, KVVC, BB Swain, MSME Secretary, Preeti Verma, CEO, KVVC, and Sangeta Saxena

प्रेस कवरेज

ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ- ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಖಾದಿಗೆ 'ಬ್ಯಾಂಡ್' ಸೃಷ್ಟಿಸಿ; ಶೆಟ್ಟರ್

ಮುಖ್ಯ: ಖಾದಿ ಒಟ್ಟಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳದ ನಿಲ್ಲಣೆಗೆ 'ಬ್ಯಾಂಡ್' ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ. ಈ ನಿಲ್ಲಣೆಗೆ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘಗಳು ಮುಂದೂಡಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಹಾಗೂ ಹಾಣೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವರ್ತಮಾನ.

ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶೆಟ್ಟರ್, ಕೆಂಪು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಹಾಬಲಿಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಗೊಣಕುಲ ಲಾಭಿಯ ಗೊಣಕುಲ ಗಾಂಧೀನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ



ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಖಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಿಂದ 47.17 ಕೋಟಿ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇದರ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 42 ಸಾವಿರ ಜನ ಸ್ಥಳೀಯ ವಸತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಗೊಣಕುಲ ಲಾಭಿಯ ಗೊಣಕುಲ ಗಾಂಧೀನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ 47.17 ಕೋಟಿ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇದರ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 42 ಸಾವಿರ ಜನ ಸ್ಥಳೀಯ ವಸತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಖಾದಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಾಟ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಗೊಣಕುಲ ಲಾಭಿಯ ಗೊಣಕುಲ ಗಾಂಧೀನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ

and.in Saturday, 12 March 2022 7

KVIC celebrates International Women's Day with great zeal and enthusiasm



By Chandrashekar Reddy
On the occasion of International Women's Day 2022, Khadi and Village Industries Commission, Mumbai organised various programmes with the theme of the year, to mark the celebration of the International Women's Day like installation and inauguration of Sanitary Napkin Machines which will be of great help to the women employees who spend long working hours in the office premises. In addition to sharing experiences

by PMEGP Women Entrepreneurs, Lecture on Financial Management and cultural programmes by Women employees followed by many more activities planned for the Day.
Earlier, Ms Preeti Verma, Chief Executive Officer, KVIC inaugurated a 3 days Khadi India exhibition in presence of Ms Aashima Gupta, FA and Dr. Sanghamitra, CVO, KVIC respectively organised in the premises. She appreciated the product stalls set by the women entrepreneurs from different

parts of the country.
Addressing on this occasion, Dr. Sanghamitra shared her journey of success and spoke on women's contribution to the other women of society and how in each and every phase she can support the other women in path of life journey and give credit to other women whenever due "you cannot help anybody unless you have good education. So always leave a message around you to get a good education, health for better future" she opined.

प्रेस कवरेज



न्यूज डायरी


मौनपालकों को टूल किट और यंत्रों का वितरण



देहरादून। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत उधमसिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के 04 समूहों के 40 मौनपालकों को 10-10 बी-बॉक्स, मौनवंश एवं टूल किट तथा 04 समूहों को दो-दो हनी निष्कासन यंत्रों का सोमवार को धनपुरी, आनंदपुर, हल्द्वानी में वितरण किया गया।

व्यावसायिक गतिविधि

इस मौके पर बीएस कंडारी, सहायक निदेशक ने हनी मिशन कार्यक्रम की जानकारी दी। पूरनसिंह कनवान-वरिष्ठ शोध सहायक, सतोष कुमार-सीनियर केमिस्ट, संजय जोशी- अध्यक्ष चैतन्य मौनालय, आयोग के सहायक निदेशक जे.एस मलिक, दर्शनसिंह, ओपी उपाध्याय ने विभिन्न जानकारियां दीं।



पर्यावरणानुकूल उत्पादों का एक स्थान



कामधे इच्छामानम्।
प्राणिनाम् अतिनिश्चयम्॥

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056.
वेबसाईट : www.kvic.org.in

बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकूल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला



Khadi India

“ भारत में हम रोजगार सृजन करते है तथा समृद्धि बुनतें हैं ”